

भारत दुनिया का रेप कैपिटल बन गया

By : Editor Published On : 7 Dec, 2019 09:00 PM IST



वायनाड । कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए भारत को दुनिया का रेप कैपिटल बताया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के रेप कैपिटल के रूप में जाना जाता है। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने रेप और हत्या के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर केस में पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा, भारत दुनिया के रेप कैपिटल के रूप में जाना जाता है। दूसरे देश पूछ रहे हैं कि क्यों भारत अपनी बहन-बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। एक बीजेपी एमएलए एक महिला के रेप में शामिल है, लेकिन पीएम इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं।' इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्नाव रेप पीड़िता की मौत पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया, उन्नाव की मासूम बेटी की दुखद एवं हृदय विदारक मौत, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना से आक्रोशित एवं स्तब्ध हूं। एक और बेटी ने न्याय और सुरक्षा के आस में दम तोड़ दिया। दुःख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के प्रति मैं आपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। देश में बढ़ रही हिंसा और रेप की घटनाओं के लिए राहुल ने मोदी सरकार पर हमला कर कहा कि ऐसी घटनाएं इसकरण बढ़ रही हैं क्योंकि मौजूदा सरकार हिंसा में यकीन रखती है। राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कहा, 'संस्थागत संरचनाएं के फेल होने के पीछे बड़ी वजह है। लोगों द्वारा कानून को हाथ में लेने की एक वजह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शख्स जो इस वक्त देश को चला रहा है, वह हिंसा में यकीन रखता है। राहुल गांधी ने कहा, आप देख रहे कि देश में हिंसा, अधर्म और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गया है। किसी न किसी महिला से रेप या छेड़खानी की खबर रोज आती है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों, दलितों को पीटा जा रहा है। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। PLC

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/भारत-दुनिया-का-रेप-कैपिटल/>

Committed to truth and impartiality

Copyright © 2009 - 2019 International News and Views Corporation. All rights reserved.

www.internationalnewsandviews.com